



EDGE

DELHI INTERNATIONAL SCHOOL EDGE

Recognized Sr. Secondary School, Affiliated to C.B.S.E. (2730828)

Sector-18, Dwarka, New Delhi – 110075

Circular No. DISE/PC/2022-23/47

Date : 24th August, 2022

“ मुंशी प्रेमचंद – सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ता सम्मान ” प्रथम चरण प्रतियोगिता हेतु कक्षा वर्ग - 1 से 5 वीं तक

“कविता विद्यार्थियों में सौंदर्य भावना पैदा करती है व छात्रों की भावनाओं का परिष्करण करती है।”

हैडो महान शिक्षाविद्

प्रिय अभिभावक गण ,

कविता कवि की भावनाओं का उद्घाटन है , कविता कवि की संवेदना का प्रवाह है , कविता जीवन को नई चेतना प्रदान करने का अनूठा माध्यम है । कविता प्रकृति से तादात्म्य या आंतरिक सौंदर्य का उद्घेदन है । कविता वाचन विद्यालय पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है जिसके माध्यम से भाषा के विभिन्न अवयवों के बारे में जानकर , संसार में व्यापत सुख – दुख , आनंद , शांति , देशभक्ति , प्रकृतिप्रेम आदि का यथार्थता पूर्ण अनुभव कर पाते हैं ।

मुंशी प्रेमचंद – सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ता सम्मान का आयोजन तीन चरणों में किया जाएगा । प्रत्येक स्तर छात्रों में भाषा के अनेक कौशलों का आकलन करता है । प्रथम चरण में चयनित छात्र ही द्वितीय व तृतीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित किए जाएंगे । प्रथम चरण अंतः कक्षा प्रतियोगिता है और सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है । हिंदी विभाग सभी छात्रों को मुंशी प्रेम चंद सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ता सम्मान के प्रथम चरण की प्रतियोगिता (Munshi Premchand Award, Round - I) “ कविता वाचन” (Poetry Recitation) के लिए आमंत्रित करता है ।

क्रम संख्या	कक्षा	दिनांक व वार	समय	निर्धारित कवियों की कोई भी एक कविता का चयन	चयन के लिए आवश्यक मापदंड हैं :-
1	कक्षा एक व दो	8 सितंबर, 2022 गुरुवार	जीरो व पहला कालांश	सोहन लाल द्विवेदी श्री प्रसाद	<ul style="list-style-type: none">भाषा प्रवाह (10)उच्चारण व शुद्धता (10)प्रस्तुतिकरण (10)शारिरिक भाव भंगिमा (10)भाषा प्रयोग (10)
2	कक्षा तीन	2 सितंबर, 2022 शुक्रवार	निर्धारित हिन्दी कालांश	सूरदास केदारनाथ अग्रवाल मीराबाई	
3	कक्षा चार	1 सितंबर, 2022 गुरुवार	निर्धारित हिन्दी कालांश	सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रामधारी सिंह दिनकर	
4	कक्षा पाँच	6 सितंबर, 2022 मंगलवार	निर्धारित हिन्दी कालांश	अयोध्या सिंह उपाध्याय रवींद्र नाथ टैगोर कुमार विश्वास	

प्रतियोगिता के प्रथम चरण संबंधित निर्देश :-

- छात्रों को कविता वाचन के लिए दो मिनट का समय दिया जाएगा ।
- छात्र परिचय को समय सीमा में शामिल नहीं किया जाएगा ।
- निर्णायकगणों का निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

Monika Dogra
HoD Hindi

Gurjeet Kaur
Co Curricular Coordinator

Anubha Srivastava
Principal